

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264486  
SG-DL-E-09072025-264486असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 119
No. 199]	DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947	[N. C. T. D. No. 119

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

फा. सं. 11/29/एच-डीओपी/2025/559-572.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 24.05.2025 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथाप्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 103(1)/3(5)/61(2)/249 तथा 25/27 सशस्त्र अधिनियम, पुलिस थाना फर्श बाज़ार (अब पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ/सीआई में जांच की जा रही है), दिल्ली के अन्तर्गत एफआईआर सं० 629/24 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं:-

शोर्ष के विवरण	शुल्क
प्रति सुनवाई उपस्थिति	रुपये 40,000 /—
तर्क/साक्ष्य/उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए मामले की तैयारी हेतु एएसजी/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/आईओ के साथ बैठक हेतु सम्मेलन प्रभार।	रुपये 15,000 /—
किसी भी आवेदन, याचिका, लिखित प्रस्तुति, उत्तर आदि के लिए प्रारूपण प्रभार।	रुपये 15,000 /—
कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत की दर से लिपिकीय शुल्क	

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
डॉ. शशिपाल डबास, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

### HOME (DOP) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2025

**F. No. 11/29/H-DOP/2025/559-572.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the Delhi Police before the Hon'ble High Court of Delhi as well as Ld. Trial in FIR No. 629/24 u/s 103(1)/3(5)/61(2)/249 BNS & 25/27 Arms Act, Police Station Farsh Bazar (now being investigated at PS Special Cell/CI), Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 24.05.2025:-

Detail of Head	Fee
Appearance per hearing	Rs. 40,000/-
Conference charge for meeting with the ASG/Senior Police Officials/IO for preparation of case for arguments/evidence/HC Hearing.	Rs. 15,000/-
Drafting charge for any application, petition, written submission, reply etc.	Rs. 15,000/-
Clerkage @ 10% of the total billing amount.	

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of The Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. SHASHIPAL DABAS, Dy. Secy. (Home-DOP)